



## HOLIDAY HOMEWORK

### UKG

#### ENGLISH LANGUAGE-

##### **ORAL:**

- ❖ Recognition of capital and small letters
- ❖ 3-3 words related to each letter .
- ❖ Read the story -Ann and Mal. Reading practice with spellings.

##### **WRITTEN:**

- ❖ Write capital letters-I, J, K ,L M, N,O  
in-- English printed notebook (English capital letters)
- ❖ Write small letters -k, l, m, n, o  
in-- English printed notebook (English Small letters)
- ❖ Write capital and small letters(A-Z & a-z)-- in 3 in 1 note book (2 times)
- ❖ Write these words(2 times),and learn the spellings- - (3 in 1 note book)

Cat ,Ball ,Tap

Pen, Den hen

Nib, Lip, Zip

Hut, Tub, Mug

Dog ,Fog Log

- ❖ Rhyming Words--Learn-

Mat, Cat, Fat

Tin, Bin, Fin

Mug, Tug, Hug

Hot, Dot, Got

Dump, Jump, Bump

- ❖ Worksheet-Exercise ,Rhyming words
- ❖ Worksheet- Learn the Opposite words



## MATH -

### ORAL:

- ❖ Counting 1-50
- ❖ Back counting 10-1
- ❖ Counting in 2s, 10s and counting in 5s (Table of 2, 10 and 5)

### WRITTEN:

- ❖ Write Numbers--1-20 (in 3 in 1 note book)
- ❖ Do the exercise in Math Book -
- ❖ Page numbers-20,25,26,27,28,29

### EVS-

- ❖ LEARN ABOUT YOURSELF

MY NAME IS -----

I AM IN CLASS UKG

MY SCHOOL'S NAME IS DPS FIROZABAD .

MY FATHER'S NAME IS-----

MY MOTHER'S NAME IS -----

I HAVE ---BROTHER AND ----SISTER.

I LIVE IN FIROZABAD .

- ❖ Exercise in EVS BOOK--

Page number-33,34,35,36,37

## HINDI-

ORAL-Reading and recognition – a se aha -and ka se gya tak

### WRITTEN:

- ❖ (in 3 in 1 note book)
- ❖ Exercise in Hindi Book-Page no -24,26,27,28



## जंक फूड

जंक फूड दुश्मन है बच्चो  
सेहत नहीं खराब करो  
गड़बड़ झाला झट पट भोजन  
बचपन ना बर्बाद करो।

कितने सारे स्वाद भरे  
व्यंजन बनते हैं भारत में  
पुआ परांठे पूरण पूरी  
पपड़ी हर घर आँगन में।  
चटक चटपटे सेव सिमेंथ्या  
रसगुल्ले मन ललचायें  
गुपचुप छुप छुप खूब उड़ायें  
दूध जलेबी भी खायें।

फूड अटपटा बजन बढ़ाये  
चर्बी ना आबाद करो  
गड़बड़ झाला झट पट भोजन  
बचपन ना बर्बाद करो।

बर्गर पीज़ा चिप्स कुरकुरे  
केक पेस्ट्री पाव बड़ा  
खाने में तो लगे टेस्टी  
पर करते नुकसान बड़ा।  
ये अपना भोजन ना बच्चो  
ना ये भोजन शैली है  
बजन बढ़ाने की बीमारी  
इससे ही तो फैली है।

अपना भोजन सबसे अच्छा  
भूल ना जाना याद रखो  
गड़बड़ झाला झट पट भोजन  
बचपन ना बर्बाद करो।

ताज़े ताज़े फल नित खाओ  
सूखे मेवे रोज चखो  
हरी सब्जियां हरी सलादें  
रोज समय पर भोजन लो।  
जीवन स्वस्थ बनाओ बच्चो  
खुशियाँ बांटो जश्र करो  
अच्छा खाओ बुद्धि बढ़ाओ  
चुटकी में हल प्रश्र करो।

जंक फूड को खाकर के तुम  
खुद पर ना आघात करो  
गड़बड़ झाला झट पट भोजन  
बचपन ना बर्बाद करो।



